



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 ज्येष्ठ 1940 (श10)  
(सं0 पटना 531) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

---

सं0 08/आरोप-01-330/2014सा0प्र0-4172

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 मार्च 2018

श्री राजीव रंजन सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-470/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के पदस्थापन काल में वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी कृत्य के लिए कोतवाली थाना (भागलपुर) कांड संख्या-500/17, दिनांक 08.08.2017 का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। कालान्तर में इस मामले की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा आरंभ की गयी। उक्त स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विधि विभाग के आदेश संख्या-252 दिनांक 28.12.2017 (शुद्धि पत्र संख्या-14 दिनांक 18.01.2018) द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी।

2. उक्त कांड में निहित आरोपों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 18(प्र0स्था0) दिनांक 31.08.2017 द्वारा आरोप, प्रपत्र-‘क’ प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक 438 दिनांक 09.01.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। एतद संबंधी पत्र बिना तामिला के ही वापस आ गया। इसके उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री सिंह को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। इसके वावजूद श्री सिंह से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तदोपरान्त आरोपों की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के आलोक में वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

3. अतएव निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव रंजन सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-470/11 तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद

जाँच बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43“बी0” के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 531-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>